



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25 ]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978/माघ 1, 1899

No. 25 ]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1978/MAGHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1978

का० भा० 27 (अ) :—कर्नाटक सरकार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची-10 के भाग ख में दिए गए सभा-निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या लोप से उद्भूत कतिपय गलतियाँ प्रजापित की है ;

और निर्वाचन आयोग, संसदीय और सभा-निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को अद्यतन बनाने के लिए उन आदेश की उक्त अनुसूची में दिए गए उन निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश की अनुसूची-10 के भाग ख में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है :—

- (1) 200-नोकाक (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, “कोन्नूर नगर (टी० पी०)” शब्द और कोष्ठक के स्थान पर “कोन्नूर नगर” शब्द रखे जायेंगे ।
- (2) 201-अराभावी में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, “कोन्नूर नगर (टी० पी०)” शब्द और कोष्ठक के स्थान पर, “कोन्नूर नगर” शब्द रखे जायेंगे ,
- (3) 206-चिम्कोडी (अ० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, “रायबाग नगर” शब्दों के स्थान पर, “रायबाग नगर और रायबाग ग्रामीण” शब्द रखे जायेंगे , और

- (4) 207-रायबाग (अ० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, “रायबाग नगर (टी० पी०)” शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, “रायबाग नगर और रायबाग ग्रामीण” शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० 282/1/कर्नाटक/78]

एम० पी० राजे, अवर सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1978

**S. O. 27(E).**—Whereas the Government of Karnataka have intimated some errors, arising from inadvertent slip or omission, in the description of the extent of assembly constituencies given in Part B of Schedule X of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 ;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of the constituencies in the said Schedule of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, to bring the Order up-to-date ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes

the corrections, in Part B of Schedule X of the said Order, as follows :—

- (1) In 200-Gokak (ST), in the description of the extent of constituency, *for the words and brackets "Konnur Town (T.P.)", the words "Konnur Town" shall be substituted ;*
- (2) In 201-Arabhavi, in the description of the extent of constituency, *for the words and brackets "Konnur Town (T.P.)" the words "Konnur Town" shall be substituted ;*

- (3) In 206-Chikkodi (SC), in the description of the extent of constituency, *for the words "Raibag town" the words "Raibag Town and Raibag Rural" shall be substituted ; and*
- (4) In 207-Raibag (SC), in the description of the extent of constituency, *for the words and brackets "Raibag Town (T.P.)", the words "Raibag Town and Raibag Rural" shall be substituted.*

[No. 282/1/KK/78]

S. P. RAJE, Under Secy.